

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

पत्रांक 4803/23

डिहरी / दिनांक 17/04/23

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सह–सचिव,
ब्राडा,
भूमि विकास बैंक भवन,
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय :-

MR New Maintenance policy-2018 में किये गये कार्य के विरुद्ध
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि **MR New Maintenance policy-2018** अर्न्तगत कराये गये कार्यों के विरुद्ध संवेदक को भुगतान करने हेतु अध्याचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। इस पथ में कोई भी ATR लंबित नहीं है। उक्त पथ का सभी डाटा की प्रविष्टि MIS पर अद्यतन है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

NKumar
17.04.23

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, डिहरी

NKB
17/04/23

FORM GFR 19 -A

(SEE GOVERNMENT of India's Decesion (I) below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto the Month of April 2023**NEW MAINTENANCE POLICY 2018 MR (3054)**

PIU - RWD DEHRI

S.No	Name of Scheme	Sanction No. & Date With amount(in Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs. Lacs)	Particulars
1	Contruction of Rural Road under MR-03054	10194 16.03.2023	1998.81355	Certificate that out of Rs. 1998.81355 Lacs received during the years in favour of Executive Engineer , RWD Dehri Bihar. Sum of Rs. 1928.87450 Lacs has been utilised for the purpose of MR (3054)-2018 Fund hences as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 69.93905 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
TOTAL			1998.81355	

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grand-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.



Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Periodical inspectioin has been conducted by Executive Engineer / Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road works.
- Construction of CD works.


D.A.O. 17/04/23
RWD (W) Div. Dehri


17.04.23
Executive Engineer
RWD (W) Div. Dehri

17/04/23

Office of the Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Dehri

Requisition formate Scheme Head MR (3054) under Bihar road Maintenance Policy-2018 (Rectification and Surface Renewal)

Sl No.	Package No.	Name of Road	Project Id as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. and Date	Administrative Approval (AA)		Agreement (in Lakh)		Agreement No. and Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/Km)	Thickness of Bitumin Layer (in mm)	Value of Bitumin Content in Percentage	Previous total amount (in Lakh)	Up to Date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against Work Done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in lakh)	Initial Rectification Surface Renewal (in Lakh)	Five Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1																		
1	RW/RO/DEH/22/0009	Manglipur more to Brodih	13121449264	1413/08.09.2022	1.6	101.392	51.452	17.029	RWDDDEHRI09MR(3054)/MBD/2022-23	06-Nov-23		2858.75	25 MM	5%	0	0	46.31	Complete
2	RW/RO/DEH/22/0015	PWD Path to Rampur Farm Via Kerpa Village	10301208017	1413/08.09.2022	1.6	108.966	60.980	18.706	15	06-Nov-23		2877.5	25 MM	5%	0	0	54.88	Complete

विभागीय पत्राक-गु030(सु) 3054-4-04/2020 पार्ट 4 5047 दिनांक 23.12.2021 के आलेख में प्रमाणित किया जाता है कि-

- गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराने के बाद MB में दर्ज किया गया है।
- सम्बन्धित कार्य कर्मीय अभियंता द्वारा कराया गया (100% जाया गया) सहायक अभियंता द्वारा 50% तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा 10% जांचा गया तथा MIS पर Upload किया गया।

D.A.07/04/23
RWD (W) Div. Dehri

EXECUTIVE ENGINEER
RWD, WORKS DIVISION,
DEHRI

17.04.23
17/04/23

Road Name-Mangitpur more to Birodih

Contractor Name-Avinash Kumar Singh

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	TEGORY ROAD	Latitude	ongitude	Event
16/4/23	8:39:16	81	0.1	240	20.2	2400	2815 G		25.01978	84.26023	Normal
16/4/23	8:40:0	81	0.1	310	20.2	3100	3515 G		25.02007	84.2595	Normal
16/4/23	8:40:0	81	0.1	180	20.2	1800	2215 G		25.02079	84.25939	Normal
16/4/23	8:40:27	81	0.1	190	20.2	1900	2315 G		25.02195	84.25678	Normal
16/4/23	8:40:46	81	0.1	240	20.2	2400	2815 G		25.02175	84.25727	Normal
16/4/23	8:41:2	81	0.1	180	10.1	1800	2215 G		25.01602	84.27183	Normal
16/4/23	8:41:30	81	0.1	250	10.1	2500	2915 G		25.0215	84.2594	Normal
16/4/23	8:41:37	81	0.1	260	20.2	2600	3015 G		25.02004	84.25514	Normal
16/4/23	8:42:0	81	0.1	200	20.2	2000	2415 G		25.01954	84.25588	Normal
16/4/23	8:42:12	81	0.1	320	20.2	3200	3615 G		25.0205	84.25614	Normal
16/4/23	8:42:24	81	0.1	200	20.2	2000	2415 G		25.02129	84.25643	Normal
16/4/23	8:42:48	81	0.1	330	20.2	3300	3715 G		25.02175	84.25261	Normal
16/4/23	08:42:55	81	0.1	270	10.1	2700	3115 G		25.02097	84.25314	Normal
16/4/23	8:43:12	81	0.1	160	10.1	1600	2015 G		25.02072	84.25372	Normal
16/4/23	8:43:25	81	0.1	280	10.1	2800	3215 G		25.0202	84.25435	Normal
16/4/23	8:43:55	81	0.1	300	20.2	3000	3415 G		25.02023	84.25197	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 1.000 * X + 415.2$$

$$X = 2900$$

$$Y = 3315$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

IRI Value

Average IRI-2858.75

16/04/23
7E

16/04/23
16. EE


Name of Customer: Atulash Kumar Singh
 Name of Work/Road: Mangitpur more to Brodh
 Lab Job number: 81
 Date: 16-04-2023
 Section No: 81

Test Date: <u>16-04-2023</u>	Road Name: <u>Mangitpur more to Brodh</u>
Machine No: <u>412</u>	Road Type: <u>(R) RURAL ROAD</u>
Start S No: <u></u>	Side: <u></u>
Start E No: <u></u>	Interval: <u></u>
Weather: <u></u>	UIV Range: <u>1015</u> To <u>5000</u> <u>1000</u> mm/km
Start Location: <u>Mangitpur more</u>	Dist Range: <u>0</u> To <u>1.7</u> <u>0.1</u> * 1000 m
End Location: <u>Brodh</u>	Equation: $Y = 0 * X^2 + 1.000 * X + 415.2$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View



NKUMAR
 16.04.23
 EE

16/04/23
 7E